



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1937 (श10)

(सं0 पटना 1141) पटना, वृहस्पतिवार, 1 अक्टूबर 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

2 सितम्बर 2015

सं0 22 नि0 सि0(पट0)-03-22/2014/1972—श्री अशोक कुमार (आई0 डी0-3987), तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल-2, मसौढ़ी सम्प्रति सहायक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल-2, बखरी, बेगुसराय के विरुद्ध ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल-2, मसौढ़ी पदस्थापन अवधि में मसौढ़ी के अधीन वर्ष 2010-11 में स्वीकृत पाँच पथों की मरम्मत कार्य में पी0 सी0 सी0 निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 221 दिनांक 22.01.15 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया है। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री कुमार को आरोप मुक्त करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अशोक कुमार (आई0 डी0-3987), तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल-2, मसौढ़ी सम्प्रति सहायक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल-2, बखरी, बेगुसराय को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1141-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>